



झाँसी पुलिस

दिनांक-07.07.2021

जानलेवा हमला के अभियोग में नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीणा के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नैपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मोठ डा० प्रदीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चिरगांव श्री संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2021 को उप निरीक्षक श्री शत्रुघन कुमार सिंह थाना चिरगांव झाँसी मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना चिरगांव पर पंजीकृत मु०अ०सं० 109/21 धारा 307/323/325/506 भा.द.वि मे वांछित नामजद अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र विरभू उर्फ बिरजू नि० ग्राम छिरौना थाना चिरगांव झाँसी, उम्र करीब 46 वर्ष गिरफ्तार किया गया एवं विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17/06/2021 को वादी श्री निखिल कुमार पुत्र रमेश कुमार नि० ग्राम छिरौना कस्बा व थाना चिरगांव झाँसी ने अपने पिता के विरुद्ध मां को जान से मारने की नियत से प्रहार करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना दाखिल किया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी के पिता रमेश कुमार पुत्र विरभू उर्फ बिरजू नि० ग्राम छिरौना थाना चिरगांव झाँसी उम्र करीब 46 वर्ष के विरुद्ध तफ्तीश अभियोग संख्या 109/21 धारा 307/325/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । अभियोग पंजीकृत होने के बाद से अभियुक्त रमेश कुमार उपरोक्त फरार चल रहा था जिसे आज दिनांक 07.07.2021 को उप०निरी० श्री शत्रुघन कुमार यादव व का० 1008 सुधांशु शुक्ला व का० 1479 गौतम कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मन्दिर के पास गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

❖ रमेश कुमार पुत्र विरभू उर्फ बिरजू नि० ग्राम छिरौना थाना चिरगांव झाँसी उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरण:-

- ❖ उपनिरीक्षक श्री शत्रुघन कुमार यादव थाना चिरगांव झाँसी
- ❖ का० 1008 सुधांशु शुक्ला थाना चिरगांव झाँसी
- ❖ का० 1479 गौतम कुमार थाना चिरगांव झाँसी